

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लगातार तीसरे वर्ष #1 रैंकिंग मिली है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 जुलाई, 2022) – कल, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को लगातार तीसरे वर्ष, बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन (Business Facilities Magazine) की 18वीं एनुअल मेट्रो रैंकिंग्स रिपोर्ट (18th Annual Metro Rankings Report) में, फूड प्रोसेसिंग लीडर्स (Food Processing Leaders) श्रेणी में पहले स्थान की रैंकिंग के साथ उच्च सम्मान मिला।

ब्रैम्पटन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए वर्कफोर्स पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए, पतझड़ 2021 में शुरू किए गए पायलट प्रोग्राम के लिए उच्च मान्यता मिली है। अन्य कारक, जिन्होंने रैंकिंग में योगदान दिया, रोजगार, इंडस्ट्री के लिए विस्तार और प्रोग्राम हैं। 2021 की पूरी रैंकिंग्स रिपोर्ट, [www.businessfacilities.com](http://www.businessfacilities.com) पर देखी जा सकती है।

ओनटैरियो के फूड क्लस्टर (Food Cluster) के हिस्से के तौर पर, जो नॉर्थ अमेरिका (North America) के सबसे बड़े एग्री-फूड (Agri-Food) सेक्टर में से एक है, ब्रैम्पटन का एक संपन्न फूड और बेवरेज सेक्टर (खानपान संबंधी पदार्थों का सेक्टर) है, जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली तकनीक, उच्च-किस्म के उत्पादों और उपजाऊ खेती परंपरा के द्वारा सहायता प्राप्त है। ब्रैम्पटन का फूड और बेवरेज सेक्टर, फूड टेस्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सुविधाओं के साथ-साथ, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग डिज़ाइन, उपकरण और रेफ्रिजरेशन स्टोरेज के साथ पूरी वन-स्टॉप शॉप है और यह सब शहर के अंदर ही है।

ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर, कैनडा की जी.डी.पी. (GDP) में वार्षिक तौर पर 1.3 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं। फूड और बेवरेज उत्पादन, प्रोसेसिंग और सहयोग इंडस्ट्रीज में लगभग 300 कंपनियों में, 8,500 लोग नौकरी करते हैं।

ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर में उच्च इम्प्लॉयर्स में शामिल हैं, लॉबलॉज (Loblaws), मैपल लॉज (Maple Lodge) और इटालपास्ता (Italpasta)। इसके अलावा, ब्रैम्पटन में कोका-कोला बॉटलिंग (Coca-Cola Bottling) और गिव एंड गो प्रीपैयर्ड फूड्स जैसे मुख्य इम्प्लॉयर्स की फैसिलिटीज हैं। इन सभी कंपनियों ने, शहर की प्रतिभा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट पहुंच का लाभ लेने के लिए, ब्रैम्पटन के अंदर खुद को अच्छे तरीके से स्थापित किया हुआ है।

हाल ही में, टॉपिट्स फूड लि. (Toppits Food Ltd.) ने, अपनी नई ब्रैम्पटन फैसिलिटी में फूड उत्पादन क्षमताओं का विस्तार और नए सीफूड प्रोसेसिंग और फ्रीज़िंग उपकरण की खरीद तथा इंस्टॉलेशन की घोषणा की है। यह ब्रैम्पटन रीजन के अंदर 60 नई नौकरियां पैदा करेगा, घरेलू उत्पादन को दुगुना करेगा और भविष्य की वृद्धि के लिए आधार बनेगा।

मैपल लीफ फूड (Maple Leaf Food) ने भी 2021 में ब्रैम्पटन कम्युनिटी में बड़ा निवेश किया है, जिसमें नई लाइन और उपकरण के लिए 80 मिलियन डॉलर का निवेश और 140 घंटों की नौकरियां और 54 वेतन वाली नौकरियां शामिल हैं।

ब्रैम्पटन के फूड और बेवरेज सेक्टर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.investbrampton.ca](http://www.investbrampton.ca) पर जाएं।

**हवाले**

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, लगातार तीसरे वर्ष के लिए, हमें बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन से फूड प्रोसेसिंग लीडर के तौर पर पहले स्थान की रैंकिंग मिलने पर गर्व है। यह रैंकिंग, हमारे फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग कारोबारों के द्वारा किए जाने वाले शानदार कार्य और उनकी सहायता करने वाली, हमारी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम के लिए सम्मान की बात है। अपनी इंडस्ट्री-लीडिंग टेक्नोलॉजी, उच्च-गुणवत्ता के उत्पादों और संपन्न खेती परंपरा के साथ, असल में ब्रैम्पटन, फूड एंड बेवरेज सेक्टर में इंडस्ट्री लीडर है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“लगातार तीसरे वर्ष, बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन की एनुअल मेट्रो रैंकिंग्स रिपोर्ट में, फूड प्रोसेसिंग लीडर्स श्रेणी में, #1 रैंकिंग से सम्मानित होना, हमारी समर्पित इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम के साथ-साथ सभी इंडस्ट्री कारोबारों और उनके वर्कर्स के लिए सम्मान की बात है। कारोबार को बनाए रखने और इसके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, सिटी, ब्रैम्पटन में नए कारोबारियों को लाने के लिए काम करने के साथ ही फूड एंड बेवरेज सेक्टर हमारे शानदार मौजूदा कारोबारियों की सहायता कर रही है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी कारोबार कम्युनिटी - ब्रैम्पटन की रीढ़ की हड्डी है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारी टीम उनकी सहायता करने के लिए - हर संभव प्रयास करने के लिए समर्पित है। हमें हमारे फूड और बेवरेज सेक्टर के प्रयासों – और हमारी समर्पित इकोनॉमिक टीम – को लगातार तीसरे वर्ष, बिजनेस फैसिलिटीज मैगज़ीन से #1 की रैंकिंग का सम्मान मिलने पर गर्व है।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)